



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1060 राँची, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

26 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-03/2018 का.-2798 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जफर हसनात, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ के विरुद्ध मनरेगा योजना अंतर्गत योजना संख्या-84/2009-10, योजना संख्या-85/2009-10 एवं योजना संख्या-86/2009-10 योजनाओं को महज तीन वर्ष के अंतराल पर ही अधूरा एवं विवादित बताते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुनः उसी स्थल पर योजना संख्या-03/2014-15, योजना संख्या-04/2014-15, एवं योजना संख्या-05/2014-15, पर कार्य कराने का एवं राशि के गबन में सहयोग संबंधी आरोप, तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा अंतर्गत प्रखंड हिरणपुर के पंचायत-डांगापाड़ा, ग्राम- धनियामारा में ग्रेड-1 पथ-सह-पुलिया निर्माण योजना में अनियमितता संबंधी आरोप जैसा कि आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका के पत्रांक-423/वि०दि०, दिनांक 14.12.2017 एवं आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका के पत्रांक-139/वि० दि०, दिनांक 26 जून, 2018 के माध्यम से गठित दो प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री हसनात के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री हसनात को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।
4. श्री हसनात द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।
5. श्री हसनात के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD. JAFAR HASNAT JHK/JAS/312	श्री जफर हसनात, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
